



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 97) पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2025

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना
Directorate of Archaeology
Art, Culture & Youth Department, Bihar
II-Notification for protect Site
5 फरवरी 2025

सं० सं० 5पुरा/सु.1-01/2016-04—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-28 दिनांक 01.02.2018 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल/स्मारक लखीसराय जिला में अवस्थित “बालगुदर गढ़” को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976” की धारा-(3) की उपधारा-(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर किया गया था, जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति के आलोक में जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-626, दिनांक 02.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 30.01.2025 को बालगुदर गाँव के मुखिया, सरपंच एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि तथा गाँव के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आहूत कर “बालगुदर गढ़” को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। सम्यक विचारोपरान्त ऊपर वर्णित पुरास्थल/स्मारक को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-(3) की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लखीसराय जिलान्तर्गत अवस्थित “बालगुदर गढ़” को पुरातात्विक स्थल के रूप में सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल / स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकबा		चौहद्दी
					एकड़. / डी.		
1	2	3	4	5	6		7
1	बालगुदर गढ़ (टीला)	पुरातात्विक अवशेष	398	819	1	25	उत्तर- NH-80 एवं मध्य विद्यालय बालगुदर, दक्षिण- उ0वि0 बालगुदर एवं लखीसराय संग्रहालय पूरब- इंटर विद्यालय, बालगुदर पश्चिम- अशोकधाम, बालगुदर सड़क

जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति
8		9	10	11	12	13	14
गढ़ (टीला)	बालगुदर	बालगुदर	लखीसराय	लखीसराय	134	लखीसराय	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 97-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>